

# नकली डीजल का धंधा: दुमका में 12 ड्रम डीजल के साथ 1 कारोबारी गिरफ्तार, बिहार में भी फैला है जाल



झारखंड की उपराजधानी दुमका के सरैयाहाट -चरकापाथर स्थित बिजली उपकेंद्र के सामने दिनेश साह के घर 12 ड्रम ज्वलनशील पदार्थ (नकली अवैध डीजल) व अन्य सामग्री जब्त किया गया है। 12 ड्रम में 200 लीटर करके 2400 लीटर ज्वलनशील पदार्थ है। एसडीपीओ उमेश सिंह के निर्देश पर सरैयाहाट थाना की पुलिस ने यह कार्रवाई की।

एसआई पुरूषोत्तम अग्निहोत्री के नेतृत्व में दिनेश साह के घर छापामारी की गयी जहां एक पिकअप वैन था, जिसको चालक लेकर भागने लगा। पुलिस ने खदेड़ कर उसे पकड़ा जिसमें 12 ड्रम ज्वलनशील पदार्थ था। वाहन चालक सोनू साह ही वाहन मालिक है।

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में चालक सोनू ने बताया कि वह अपने पिता दिनेश साह के देखरेख में चरकापाथर के प्रकाश मंडल के घर से अवैध डीजल पेट्रोल लाकर संग्रह किया जाता है। इसे बिक्री के लिए बिहार भेजा जाता है। इस मामले दिनेश साह के साथ ही चरकापाथर के प्रकाश मंडल और सोनू साह को नामजद अभियुक्त बनाते हुए सरैयाहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोनू साह को गिरफ्तार कर लिया है। एक फरार अभियुक्त प्रकाश मंडल हंसडीहा थाना क्षेत्र के गंगवारा में अवैध डिपो में लगे आग के मामले में पूर्व में जेल भी जा चुका है। इस मामले में सरैयाहाट थाना में ज्वलनशील पदार्थ को खरीदने-बेचने के अपराधिक षड़यंत्र के तहत धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर अवैध रूप से रसायनिक पदार्थ मिलाकर नकली पेट्रोल एवं डीजल बनाने एवं राजस्व के चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

**पहले से चल रहा नकली डीजल व पेट्रोल बनाने का कारोबार**

सरैयाहाट और हंसडीहा में थाना क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थ से केमिकल मिलाकर डीजल व पेट्रोल बनाने का कारोबार कोई नया नहीं है। यह अवैध धंधा वर्षों से फल-फूल रहा है। पिछले दिनों हंसडीहा थाना के गंगवारा गांव के निकट इस अवैध धंधे में एक अवैध डीज़ल डिपो में भीषण आग लग गई थी जिसमें एक टैंकर सहित 75 लाख की सम्पत्ति जलकर राख हो गया था। अभी भी कई ठिकानों पर यह अवैध धंधा बेरोकटोक चल रहा है।

Source: <https://www.livehindustan.com/jharkhand/story-jharkhand-latest-news-nakali-diesel-bussiness-in-dumka-one-arrested-with-twelve-drum-of-diesel-6603071.html>